| उप-बिल स.    |  |
|--------------|--|
| Sub-Bill No. |  |

## दौरे के लिए यात्रा भत्ता बिल

Travelling Allowance Bill for Tour

नोट: - इस बिल को दोहरी प्रति में तैयार किया जाए, एक भुगतान के लिए और दूसरी कार्यालय प्रति के रूप में.

**Note: -** This bill should be prepared in duplicate, One for payment and other as office copy.

## भाग-क/ PART-A

(सरकारी सेवक द्वारा भरा जाए/ To be filled by the Government Servant)

| 1  | अधिकारी/कर्मचारी का नाम                      |                     |
|----|--|---------------------|
|    | Name of Officer/Official                     |                     |
| 2  | पदनाम/Designation                            |                     |
| 3  | वेतन/Pay                                     | ₹                   |
| 4  | मुख्यालय/Headquarters                        |                     |
| 5. | की गई यात्रा के विवरण और उद्देश्य            | निम्नलिखित/As under |
|    | Details and Purpose of Journey(s) performed: |                     |

| प्रस्थान/Departure  |                 | आगमन/Arrival                  |               | यात्रा के साधन<br>और आवास की                              | अदा किया<br>गया किराया | दूरी किमी में<br>Distance in |
|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|------------------------|------------------------------|
| तारीख व<br>समय<br>Date & time                                   | कहाँ से<br>From | तारीख व<br>समय<br>Date & Time | कहाँ तक<br>To | श्रेणी<br>Mode of travel and<br>class of<br>accommodation | (₹) Fare paid (Rs)     | Kms.                         |
| 1.  | 2.              | 3.                            | 4.            | 5.  | 6.                     | 7.                           |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
|   |                 |                               |               |   |                        |                              |
| निष्पादित यात्रा का उद्देश्य<br>Purpose of Journey<br>Performed |                 |                               |               |   |                        |                              |

| 6.                  | यात्रा के साधन /Mode of journey   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 0.                  | II II VI VI II VI V |  |  |  |  |  |  |  |
| (i)                 | वायु/Air  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | (क)   | विनिमय वाउचर की व्यवस्था कार्यालय द्वारा   | हाँ /नहीं  |  |  |  |  |  |
|                     |   | की गई थी   | Yes / No   |  |  |  |  |  |
|                     | (a)   | Exchange voucher arranged by office  |  |  |  |  |  |  |
|                     | (ख)   | टिकट/विनिमय वाउचर किसके द्वारा   |  |  |  |  |  |  |
|                     | , ,   | व्यवस्थित ?  |  |  |  |  |  |  |
|                     | (b)   | Ticket / Exchange voucher arranged by  |  |  |  |  |  |  |
| (ii)                | रेल/Rail  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | (क)   | क्या मेल/एक्सप्रेस/साधारण रेल से यात्रा की?  | हाँ /नहीं  |  |  |  |  |  |
|                     |   | Whether travelled by Mail/Express/Ordinary train?  | Yes / No   |  |  |  |  |  |
|                     | (a)   |  | ۵, ۵   |  |  |  |  |  |
|                     | (ख)   | क्या वापसी टिकट उपलब्ध था ?  | हाँ /नहीं  |  |  |  |  |  |
|                     | (b)   | Whether return ticket was available?   | Yes / No   |  |  |  |  |  |
|                     | (ग)   | यदि उपलब्ध था तो क्या वापसी टिकट खरीद  | हाँ <i>।</i> नहीं                                    |  |  |  |  |  |
|                     |   | लिया गया था ? यदि नहीं, तो कारण बताएं  | Yes / No   |  |  |  |  |  |
|                     | (c)   | If available, whether return ticket purchased? If not, state reasons   |  |  |  |  |  |  |
| (iii)               | सड़क/Road   |  |  |  |  |  |  |  |
| यात्रा व            | के लिए उपयो   |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |   | वाहन में एक सीट लेकर, किसी सरकारी कर्मचारी   |  |  |  |  |  |  |
|                     | कार में सहभागिता जैसे भी विनिर्दिष्ट करें।  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     | •   | e used i.e. by Government transport, by taking a Taxi,   |  |  |  |  |  |  |
| _                   |   | s or other public conveyance, by sharing with another in car belonging to him/her or to a third person to be |  |  |  |  |  |  |
|                     |   | in car belonging to infinite of to a time person to be   |  |  |  |  |  |  |
| specifi             | specified.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.                  | ठहरने के स  | थान से अनुपस्थिति की तारीख व कारण :  |  |  |  |  |  |  |
| ()                  |   | sence from Place of halt, on account of :  |  |  |  |  |  |  |
| (क)                 |   | अवकाश एवं आकस्मिक छुट्टी<br>Holiday & Casual Leave   |  |  |  |  |  |  |
| (a)<br>( <b>ख</b> ) | रविवार और छ्ट्टियों के दिन शिविर से अन्पस्थिति  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b)                 | Not being actually in camp on Sunday and holidays.  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                   | ग्रन्य भशत  | ा गुन्य निधि में विन पोषित किमी मंगठन दवा  | रा प्रदान किए गये मुफ्त भोजन और/या आवास              |  |  |  |  |  |
| 8.                  |   |  | or lodging provided by the State or any organisation |  |  |  |  |  |
|                     |   | State funds:   |  |  |  |  |  |  |
|                     | (a)   | केवल भोजन  |  |  |  |  |  |  |
|                     |   | Boarding only  |  |  |  |  |  |  |
|                     | (b)   | केवल आवास  |  |  |  |  |  |  |
|                     | ( )   | Lodging only   |  |  |  |  |  |  |
|                     | (c)   | भोजन और आवास   |  |  |  |  |  |  |
|                     | 1   | Board and lodging  |  |  |  |  |  |  |

9 निर्धारित टैरिफ पर भोजन और आवास प्रदान करने वाले होटल/ अन्य स्थापनाओं में ठहरने के मामले में दैनिक भत्ता से अधिक दावा करने पर होटल रसीदों के साथ विवरण प्रस्तुत करें|
Particulars to be furnished along with hotel receipt etc. in cases where higher rate of D.A. is claimed for stay in

hotel other establishments providing board and/or lodging at scheduled tariffs:

| ठहरने की अवधि | Period of Stay | होटल का नाम<br>Name of the Hotel | आवास हेतु<br>प्रभारित दैनिक      | अदा की गई<br>कुल रकम<br>Total Amount<br>paid |  |
|---------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| कब से/From    | कब तक/To       |                                  | दर Daily rate of Lodging charged |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |
|               |                |                                  |                                  |  |  |

|   | 10.  | यात्रा के विवरण जिसके लिए सरकारी सेवक ने हकदारी से उच्च श्रेणी की सुविधा का उपयोग किया: |   |                 |                               |                          |                            |            |
|---|------|---|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|   |      | Particulars of journ  | Particulars of journey (s) for which higher class of accommodation than the one which the Govt. servant is entitled was used: |                 |                               |                          |                            |            |
| ŀ |      |   |   |                 |                               | 0 10 5                   |                            |            |
|   | तिथि | स्थान क   | ा नाम   | प्रयुक्त किया   | श्रेणी                        | किस श्रेणी में           | हकदार                      | श्रणी      |
| L | Date | Name of   | Place   | गया यात्रा का   | जिसके                         | यात्रा की                | का कि                      | ाया .      |
|   |      | से<br>From  | तक<br>To  | साधन<br>Mode of | लिए                           | Class by which travelled | Fare of the entitled class |            |
|   |      |   |   | Conveyance used | हक़दार हैं<br>                |                          |                            |            |
|   |      |   |   |                 | Class to<br>which<br>entitled |                          | 7                          |            |
|   | 1    | 2   | 3   | 4               | 5                             | 6                        | ₹<br>Rs.                   | ਪੈ.<br>Ps. |
|   |      |   |   |                 |                               |                          |                            |            |
|   |      |   |   |                 |                               |                          |                            |            |
|   |      |   |   |                 |                               |                          |                            |            |
|   |      |   |   |                 |                               |                          |                            |            |

|             |                           |                   |                    |            | कुल<br>Total        |                           |
|-------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| यदि यात्र   | ग सक्षम प्राधिकारी व      | के अनुमोदन से     |                    |            |                     |                           |
| उच्च श्रेणी | में यात्रा की गई है       | तो संस्वीकृति सं. |                    |            |                     |                           |
| ,           | एवं तिथि का उद्धृत        | करें              |                    |            |                     |                           |
|             | e journey by highe        |                   |                    |            |                     |                           |
| accommo     | odation has been p        | performed with    |                    |            |                     |                           |
| the appr    | oval of the Compe         | etent Authority,  |                    |            |                     |                           |
| No. an      | d date of the sand        | ction may be      |                    |            |                     |                           |
|             | quoted.                   |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
| 11          | 1.                        | रेल से जुड़े स्थ  | ानों के बीच सड़क   | द्वारा किए | गए यात्राओं का र्व  | वेवरण :                   |
| 1           | De                        | 9                 | ) performed by     | · ·        |                     |                           |
| र्ति        | थ                         | स्थान का न        | ाम                 | भूग        | तान किया गया        | किराया                    |
| Dat         | te                        | Name of Pla       | ce                 | 3          | Fare Paid           |                           |
| 1           |                           | से                | तक                 |            |                     |                           |
|             | ]                         | From              | То                 |            |                     |                           |
|             |                           | 2                 | 3                  | ₹.         |                     | पै.                       |
|             |                           |                   |                    | Rs.        |                     | Ps.                       |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   | ਰੂਲ<br>Total       |            |                     |                           |
|             |                           |                   | Total              |            |                     |                           |
| 12. यात्र   | मा<br>भाभता की अग्रिम र   | ाशि थया कोर्ट ३   | गटीच की गर्ट हो    | ₹.         |                     |                           |
|             | Amount of Advance of      | •                 | •                  | Rs.        |                     |                           |
|             |                           |                   | ,, ,               |            | <b>-</b>            |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
| Я           | माणित किया जाता           | है कि ऊपर दी व    | गर्ड सचना मेरे संद | नान और विश | वास के अनसार        | सही है ।                  |
|             | Certified that the inform |                   | •                  |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |
| दिनांक/ D   | Pate :                    |                   |                    | [          |                     | ]                         |
|             |                           |                   |                    | -          | सरकारी सेवक वे      | <sub>.</sub><br>हस्ताक्षर |
|             |                           |                   |                    | Sig        | gnature of the Gove | •                         |
|             |                           |                   |                    |            |                     |                           |

## भाग-बी/PART- B

## [ बिल अनुभाग में भरा जाना ] [ To be filled in the Bill Section ]

|     | यात्रा भता के संबंध में शुद्ध हकदारी रु<br>The net entitlement on account of Travelling Allowance works out to Rs |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|-----|---|--------------------------------|------------|----------|-----------------|------------------|------|------------------|--|
|     | THE   | net entitiemer                 | it on acco | Juni Oi  | Travelling Anov | valice works out |      | <br>शे रुपये में |  |
|     |   |                                |            |          |                 | (Amount in       | Rs.) |                  |  |
| (a) |   | रेल                            | /वायु/बर   | न/स्टीम  | र का किराया     |                  |      |                  |  |
|     |   |                                | •          |          | /Steamer fare   |                  |      |                  |  |
| (b) | सड़क किरायाप्रति कि.मी. की दर से  |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     | ]   | Road Mileage                   | for        | K        | Kms @           | -per / Km.       |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
| (C) |   |                                |            |          |                 | ह भता            |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          | 1               | llowance         | 1    |                  |  |
| ਰਿ  |   | ₹                              | ामय        |          | घं./मि.         | ठहराव/यात्र      | Т    | दैनिक            |  |
| Da  | te  | Т                              | ime        |          | Hrs/Min.        | Stay/Journ       | ey 3 | मता की           |  |
|     |   | से                             | तव         | <b>क</b> |                 |                  |      | दर               |  |
|     |   | From                           | To         | 0        |                 |                  |      | Rate             |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  | C    | of D.A           |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
| (d) |   | वास्तविक व्य                   | ाय         |          |                 |                  |      |                  |  |
| ()  | Α   |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     | Actual Expenses<br>ऑटो/टैक्सी/अन्य  |                                |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   | Silei/eqxii/Si<br>Auto/Taxi/Ot |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   | Tator Taxir Of                 | 101        |          |                 |                  |      |                  |  |
| (e) |   |                                |            |          | குமி            |                  |      |                  |  |
| (e) |   | सकल राशि                       |            |          |                 |                  |      |                  |  |
|     |   | Gross Amount                   |            |          |                 |                  |      |                  |  |

| (f) अग्रिम यात्रा भता राशि का घटाव | व. अगर कोई दिनांक के                        |  |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|
| \'','                              | ्र अगर फाइ दिनाक क<br>के तहत आहरित की गई हो |  |  |  |  |
|                                    | y drawn vide Voucher No                     |  |  |  |  |
| Dated                              | ·   |  |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |  |
|                                    | निवल राशि                                   |  |  |  |  |
| Amount                             | Net   |  |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |  |
| ट्यय                               | यात्रा भत्ता खाते से विकलनीय है             |  |  |  |  |
| The e                              | expenditure is debitable to T.A Account.    |  |  |  |  |
|                                    | _   |  |  |  |  |
| <u>टिप्पणियाँ :</u>                |   |  |  |  |  |
| Remarks:                           | आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर       |  |  |  |  |
|                                    | Signature of Drawing & Disbursing Officer   |  |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |  |
|                                    |   |  |  |  |  |
|                                    | _<br>¬                                      |  |  |  |  |
| रु मात्र के भुगतान हेतु            |   |  |  |  |  |
| बिल पारित किया गया                 |   |  |  |  |  |
| Passed for Payment of Rs           |   |  |  |  |  |

only.

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Controlling Officer